



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 944]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2017/अग्रहायण 2, 1939

No. 944]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2017/AGRAHAYANA 2, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1439(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 द्वारा नाइट्रो-ग्लिसरीन या ऐसे अन्य पदार्थ का चाहे वह एकल रासायनिक यौगिक हो या ऐसे विस्फोटकों (वर्ग 3 के खंड 1 के विस्फोटक) के मिश्रण के धारण, बिक्री और उपयोग को प्रतिषेध कर दिया था और उक्त अधिसूचना में उक्त विस्फोटकों के विद्यमान भंडार के निस्तारण की विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 530(अ), तारीख 20 अगस्त, 2004 को 1 दिसम्बर, 2004 तक किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 88(अ), तारीख 13 फरवरी, 2015 द्वारा अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ), तारीख 21 जनवरी 2004 के उपबंधों के प्रवर्तन से संघ के सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्स कारखानों या रक्षा बलों के अन्य स्थापनों द्वारा उपयोग वाले नाइट्रो-ग्लिसरीन या विस्फोटकों आधारित नाइट्रो-ग्लिसरीन के विनिर्माण से प्राइवेट सेक्टर की विनिर्माण इकाइयों को छूट प्रदान की थी;

और केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार के उपक्रम मै. तमिलनाडु औद्योगिक विस्फोटक लि. से संघ के सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्स कारखानों आदि के उपयोग के लिए नाइट्रो-ग्लिसरीन और विस्फोटकों आधारित नाइट्रो-ग्लिसरीन के विनिर्माण हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ) तारीख 21 जनवरी, 2004 के उपबंधों के प्रवर्तन से संघ के सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्स कारखानों या रक्षा बलों के अन्य स्थापनों द्वारा उपयोग के लिए नाइट्रो-ग्लिसरीन या विस्फोटकों आधारित नाइट्रो-ग्लिसरीन के विनिर्माण से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या उनके उपक्रमों की विनिर्माण इकाइयों को छूट प्रदान करती है और ऐसी विनिर्माण इकाइयां विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों के अतिरिक्त विस्फोटक समिति की भंडारण और परिवहन (वि.स.भ.प.) पुस्तिका का और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अनुज्ञप्ति प्राप्त रक्षा उद्योगों की सुरक्षा संबंधी मैनुअल का अनुपालन करेंगी।

[फा. सं. 5(73)/2017-विस्फोटक]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2017

G.S.R. 1439(E).—Whereas the Central Government had prohibited the possession, sale and use of nitroglycerine or such other substance whether a single chemical compound or a mixture of such explosives (explosive of class 3 Division 1) vide notification number G.S.R. 59(E), dated the 21st January, 2004 and the time limit specified in the said notification was extended to dispose of the existing stock of said explosives till the 1st day of December, 2004 vide notification number G.S.R. 530(E), dated the 20th August, 2004;

And whereas, the Central Government vide notification number G.S.R. 88(E) dated 13th February, 2015 had exempted manufacturing units in private sector to manufacture nitroglycerine or nitroglycerine based explosives for use by the Armed Forces of the Union, Ordnance Factories or other establishments of Defence Forces from operation of provisions of the notification number G.S.R. 59(E) dated 21st January, 2004;

And whereas, the Central Government received a request from M/s. Tamil Nadu Industrial Explosives Limited, a Government of Tamil Nadu Undertaking for permission to manufacture nitroglycerine and nitroglycerine based explosives for use of the Armed Forces of the Union, Ordnance Factories, etc;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts manufacturing units of the Central Government and State Governments or their undertakings to manufacture nitroglycerine or nitroglycerine based explosives for use by the Armed Forces of the Union, Ordnance Factories or other establishments of Defence Forces from the operation of provisions of the notification number G.S.R. 59(E), dated 21st January, 2004 from the date of publication of this notification and such manufacturing units, in addition to provisions of the Explosives Rules, 2008, shall adhere to the provisions of Storage and Transportation of Explosives Committee (STEC) Pamphlets and Security Manual for Licensed Defence Industries issued by the Ministry of Defence.

[F. No. 5(73)/2017-Expl.]

SHAIENDRA SINGH, Addl. Secy.